

PCL/SE/9/2020-2021

05.09.2020

The Corporate Relationship Department	The General Manager- Listing	
The Bombay Stock Exchange Ltd.	National Stock Exchange of India Ltd.	
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex,	
Dalal Street,	Bandra (East),	
Mumbai-400 001	Mumbai-400 051	

Symbol/Scrip Code: (BSE)530555/(NSE) PARACABLES

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Regulations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of an advertisement by the Company in Compliance of MCA Circular No. 5th May, 2020, before sending the Notice of the ensuing AGM (Annual General Meeting) together with the Annual Report to all the Members of the Company. The Company published the advertisement in the following newspaper:

1) Financial Express in English Language on 03.09.2020

2) Jansatta in Hindi Language on 04.09.2020

For Paramount Communications Limited

Rashi Goel Company Secretary & Compliance Officer

anno

Paramount Communications Ltd Paramount House C-125 Naraina Industrial Area Phase-1 New Delhi - 110028 t: +91 11 45618800 f: +91 11 25893719-20 pcl@paramountcables.com www.paramountcables.com

CIN: L74899DL1994PLC061295



Centre for Aromatic plants (CAP) **Industrial Estate**,

Selagui-248011, Dehradun (Uttarakhand) Telefax-0135-2698305, E-mail: cap.dun@gmail.com Website www.capuk.in

e-Tender Notice No 14/LAB/2020-21

shall be considered only on production of valid proof of Exemption Certificate from the concerned authority. The tender can only be applied through e-tendering procedure on the website www.uktenders.gov.in. The last date of submission is 22nd September, 2020.

AXIS BANK Sale Notice for Sale Immovable Property

Particulars

Net Profit [uss] for the period [before lar, exceptional

Net Protit/(loss) for the period after Tax (after exceptional

Total Comprehensive Income for the period (Comprising

Equity Share capital (Face value of fix 10/ per share)

with SEBI Circular No. CIR/CFD/FACR/2/2016 dated July 5, 2016.

at their respective meeting held on 2nd September, 2020.

Earning per share(for community and discontinued

Not Profit(loss) for the period before Tax (after

profit/floss) for the period (after tax) and other

exceptional and for cetracodinary items

Total Income from Operations

and for entraordinary form

and los estraordinary item)

operations)

1. Pasic:

2 Diffuted

Place : New Delhi

Dated: 2nd September 2020

etc. thereon.

Note:

comprehensive income (after tax)

Retail Assets Center: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow-226010 : 3rd Floor, Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhakar Marg, Worli, Mumbai-400 025 Registered Office : 'Trishul', 3rd floor, Opposite Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor. The Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 15.10.2020 at 11:00 am (Last date of submitting bid is 14.10.2020 till 05:00 pm) for recovery of Rs. 16,06,785.85 (due

as on 12.05.2017 along with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred up to the date

of actual payment and/or realization) due to the secured creditor from Mr. Sayyad Yusuf Ali (Borrower) &

Mrs. Simaran (Co-Borrower). The reserve price will be Rs.11,20,111.00 and the earnest money deposit will be

Rs. 1,12,011.10. Location / Details of the Immovable Property and the plant and Encumbrances, if any Account Number machinery (as applicable)/ Secured Assets possessed and put for sale known to the Bank PHR028201838029 Situated at R/o E.W.S. H.No. Kha-42, Kabir Nagar Yojna, Rampur Road, Moradabad, Uttar Pradesh, India- 244001, Which is in the name of Sayyad Area- 53.35 Sq.Mt. Boundaries: East -E.W.S Building No. Ka-21, West - Road, North - E.W.S. Building No. Ka-41, South - E.W.S Building No. Ka-43

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. https://www.axisbank.com/auction-notices/

DUROPACK LIMITED

CIN: L748990L1906PLC025835

Regd. Office: 3123, Sector-D. Pkt-III, Vasant Kuni, New Delhi -110070

Tel: 01126191861 Email: into@duropackindia.com Website: www.duropackindia.com

Usaudited financial results for the Quarter ended 30th June 2020

For Quarter

ended June

30,2039

Unaudited

IND AS

137.29

0.24

2.24

-0.72

8.99

465.29

0.97

-0.62

1. The above is the extract of the detailed format of Unaudited Financial results for the quarter eaded June 39,2020 filed with

the Stock Echange under Regulation 33 of the SEER (Listing obligations and Disclosures Requirements) Regulations 2015 read

The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under section 135

The above results were reviewed by the audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the company

Previous quarter figures have been rearranged and/or regrouped, wherever necessary to make them comparable with those

The outbreak of COVID-19 pendemic across the globe and in individed consequential nationwide lockdown since March 24,

2020 has caused a slowdown in economic activities. The management has assessed the peternial impact of COVID-19 on

the company and based on its review there is no significant impact on its brancial results on a medium and long term basis.

The quarterly results shall be pasted on the Company's website www.durepackinda/investor and Bombay Stock exchange

of the Companies Act, 2013 read together with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015.

However last quarter of EY 20 and 1st two quarters of EY 21 shall have some impact.

For Quarter

ended Barch

31,2020

Audited

IND AS

433.73

19.34

10.31

3.19

0.26

0.07

0.07

465.29

For Quarter

ended Jare

30,2019

Undudited

IND AS

编码

21,46

21,46

15.90

22.81

465.79

0.34

0.34

For Duro Pack Limited

Managing Director

DIN: 01753065

Vivek Jain

(Authorized Officer), AXIS BANK LTD. Date: 03.09.2020. Place: Lucknow

e-Tender Notice No 17/LAB/2020-21 e-tenders are invited from the Authorized Indian Agents/Dealers of Original Equipment Manufacturers (OEM) for the supply, installation

13,500/ (Rupees Thirteen Thousand Five Hundred only). Exemption

Industrial Estate,

Website www.capuk.in

e-Tender Notice No 18/LAB/2020-21

e-tenders are invited from the Authorized Indian Agents/ Dealers of Original Equipment Manufacturers (OEM) for the supply, installation and commissioning of Multi Mixer Plant (ointment, Gel, Cream, Lotion manufacturing)- 01 no. The terms and conditions of tender document along with other information can be downloaded from e-tendering website of Uttarakhand Government www.uktenders.gov.in from 07.09.2020 to 22.09.2020 The cost of tender is Rs. 1180/- including GST and Earnest Money Deposit is Rs. 28,500/ (Rupees Twenty Eight Thousand Five hundred only) Exemption for cost of tender and EMD, if any shall be considered only on production, of valid proof of Exemption certificate from the concerned authority. The tender can only be applied through etendering procedure on the website **www.uktenders.gov.in**. The last date of submission is 22nd September, 2020

Director

C)lassifieds

PROPERTY

Industrial Property available For Sale & Rent In Pune Industrial Area (10k To 25 acre) in Chakan, Talegaon, Hinjewadi, Bhosari, NagarRoad, SataraRoad, Shirwal Khandala . Contact Vasu Patil 9657141085

0050168128-1

Jaipur, India

Date: .03.09.2020

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

(Resintables)

For Year

eaded March

31,2839

Audited

IND AS

1713,18

115,66

115.66

85.21

100.64

465.23

1.23

FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part Lof Chapter XXI of the Act Paragant to section 314 b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies. (Authorised to Register) Rules, 2814)

 Notice is hereby given that in pursuance of sub section (2) of section 366 of the Companies Act, 2011, an application is proposed to be made after lifteen days hereof but before the expiry of thirt days hereinofler to the Registrar of Companies National Capital Territory of Debi & Haryana 4th Floor IFOI Tower, 61, Nohru Place, Now Dehi - 110019 that "M/s Nuorik Healthcare" a Partnership may be registere under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2011, as a company limited by shares. 2. The principal objects of the company are as

"To carry on the business of manufacturers. traders, seller, importers, exporters, research principal agents, sub-agents, representatives. either solely or in conjunction with others by or through agents, sub-contractors and deal n pharmaceutical including allopathic, cosmetics, ayurvedic, homeopathic and unani drugs and medicines and deals in ampoules, vials, injection needles, syringes, electro medical equipment, and surpical appliances of all kinds and chemicals. surgicals and scientific apparatus, materials." Accepy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be impacted at the office at H. Ho. A-1/1, Plot no. 1 Street No.-29, Bharat Vihar Road, Nadhu What, New Delhi - 110059

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6. T, B, Sector S, BIT Manesar, District Garpage. (Haryana), Pin Code-122250 within twenty-one days from the date of publication of this notice with a copy to the company at its registered office. NAME OF APPLICANTS

> 1. Jikender Kumar Manjiri 2. Probhat Kumar Pandey 1. Anjoni Kumar Tripothi

Date: 02:09:2020 | Place: New Delhi

ALBA POLYMERS LIMITED

Formerly Known as Gowri Polymers Limited) Regd. Office: 204, 210 Floor, Plot-09, Sikka Complex Community Center, Preet Vihar, Delhi - 110092 Email-id: gowripolymer@yahoo.com; CIN: L74899DL1995PLC066652; Website: www.gowripolymers.com NOTICE

Notice is hereby given that Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Gauri Shankar Mandir, K-Block, Mangol Puri, Delhi-110083 on Wednesday, 23rd September, 2020 at 9:00 A.M. to transact the Business, as set out in the Notice of AGM

The said Notice along with the Proxy Form Attendance Slip, and Annual Report inter-alia containing Director's Report, Auditor's Report an Audited Financial Statement has been dispatche to all Members at their registered address or ema ids on 31" August, 2020 and the same is also available on the website of the Company a www.gowripolymers.com and the Notice of th AGM is also available on the website of Nationa Securities Depositary Limited (NSDL) at https:

In compliance with Section 108 of the Compani Act. 2013 read with Rule 20 of the Companie (Management and Administration) Rules, 2014 Members are provided with the facility to cast the votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from place other than the venue of the AGM ('remot e-voting"), provided by National Securities Depositary Limited (NSDL) and the business ma be transacted through such voting.

The remate e-voting period commences on 20° September, 2020 (9.00 A.M) and ends on 22° September, 2020 (5.00 P.M). During this period Members may cast their vote electronically. The voting module shall be disabled by NSD thereafter. Remote e-voting shall not be allowed after the closing of business hour of Tuesday 22nd September, 2020 (5.00 P.M). The voting ights of Members shall be in proportion to th equity shares held by them in the paid up equit share capital of the Company as on 16 September, 2020 ("cut-off date"). Any person who is a Member of the Company as on the cutoff date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e voting or voting at the AGM by poll.

A person who has acquired shares and become mber of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth i the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by Ballot paper. Such person ma obtain the login ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. The facility for voting, on a Ballot paper shall be

made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e voting shall be able to exercise their right at the remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs and e-voting manual available www.evoting.nsdl.com under help section write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or contact on toll free number provided by NSDI 1800222990 or contact Mr. Nitin Ambure, Vice President National Securities Depository Limiter Trade World - A Wing, Kamala Mills Compour Lower Parel, Mumbai - 400013. In case of grievances/difficulties, Members may also contact M/s. Alankit Assignments Limited, the Registrar and Share Transfer Agents of the

2013, the Register of Members and Share ransfer Books of the Company will remain closer from 18th September, 2020 to 21th September 2020 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020.

Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy/through authorise representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before th

By Order of the Board ALBA POLYMERS LIMITED ARU KUMAR DEY Universal Autofoundry Limited (Formerly known as Universal Autofoundry Private Limited)

Reg. Office: B 307, Road No. 16, V.K.I. Area, JAIPUR 302 013 INDIA Tel. +91 141 2460 289 Fax: +91 141 2460 329 Email: cs@ufindia.com Website: www.ufindia.com CIN: L27310RJ2009PLC030038; GSTIN: 08AABCU1171A1ZV

NOTICE OF 11[™] ANNUAL GENERAL MEETING The 11th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 29th

September, 2020 at 05.00 P.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM in accordance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 05.05.2020 [read with Circulars dated 08.04.2020, 13.04.2020 and 21.04.2020 (Collectively referred to as MCA Circulars)] and SEBI Circular dated 12.05.2020 Members can join the Meeting through VC/OAVM means only. The Company will be sending the Notice through electronic mode to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agents. The Annual Report for the Financial Year 2019-20 will be available for download from the Company's Website www.ufindia.com, the website of the BSE Limited www.bseindia.com and the website of KFIN Technologies Private Limited www.kfintech.com The instructions for joining the 11th AGM and the manner for participating in the remote e-voting are provided in the Notice. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 it is hereby informed that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September 2020 to 29th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. In view of the above, the Members are requested to note that, if you have not registered your email address and mobile Numbers including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited in case the shares held in physical form. Alternatively, member may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the evoting instructions. In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at website of KFin technologies Pvt Ltd i.e. www.kfintech.com

For Universal Autofoundry Limited

Ishu Jain Company Secretary & Compliance Officer M. No.- F10679

AHLCON PARENTERALS (INDIA) LIMITED CIN: U24239DL1992PLC047245 Regd Office: Plot No. 30 & 30 E, 2nd Floor, Shivaji Marg, Najafgarh Road Industrial Area, New Delhi - 110015 NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION ETC.

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Ahlcon Parenterals (India) Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Monday, the 21st day of September, 2020 at 4.00 PM to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA Depository on 31st August, 2020

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for the F.Y. 2019-20 and login details for e-voting.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the hareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self atteste: scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for egistering email address.

Please send your bank details with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS

Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) alongwith letter mentioning folio no. if not registered already. Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your

email address as per the process advised by DP. Please, also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declared by company. These documents are also available on Company's website www.ahlconindia.com

for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies Management and Administration) Rules, 2014 as amended that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) through their portal www.evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences from 18/09/2020 9.AM TO 20/09/2020 5.00 PM

No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members

of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of August 28th 2020, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 14/09/2020, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk@cdslindia.com or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the members are already registered with CDSL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Shri Kundan Agarwal, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7631 & CP No. 8325), Proprietor M/s. Kundan Agarwal & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Shri Ranjan Kuma Sahu, Company Secretary and Compliance Officer, Ahlcon Parenterals (India) Limited Plot No.30 & 30 E, 2nd Floor, Shivaji Marg, Najafgarh Road Industrial Area, New Delh 110015, Email: info@ahlconindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 15/09/2020 to 21/09/2020 (both days nclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual Genera

For Ahlcon Parenterals (India) Limited

Place: New Delhi Date: 31.08.2020

Meeting.

Ranjan Kumar Sahu Company Secretary

Paramount Communications Ltd. PARAMOUNT CIN: L74899DL1994PLC061295 Regd. Office: Paramount House,

Section 103 of the Companies Act, 2013.

C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 Ph.: +91-11-45618800-900, Fax: +91-11-25893719/20 E-mail: pcl@paramountcables.com, Website: www.paramountcables.com

INFORMATION REGARDING 26th ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 26" Annual General Meeting ("AGM") of the

Company will be held on Wednesday, the 30th Day of September, 2020 at 04:30 P.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 dated 8" April, 2020, 13" April 2020 and 5" May, 2020, respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Collectively referred to as relevant circulars), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached therewith will be sent only to those members whose email id are registered with the Company/Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.paramountcables.com and at the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and at Link Intime India Private Limited website at https://instavote.linkintime.co.in

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting) to all its members to cast their vote on all the Resolutions set out in the Notice of AGM. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed Procedure for remote e-voting/e-voting and participation in AGM through VC/OAVM has been provided in the Notice of AGM, will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email address shortly.

In case you have not registered your email address with the Company/ Depository Participant, please follow below instructions to register your emailid for obtaining Annual Report: Demat Holdings: The Members holding Equity Shares of the Company in

Demat Form and who have not registered their email addresses may temporarily register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in It is clarified that for permanent registration of email address and Bank Details in your Demat account, members are requested to approach the respective Depository Participant ('DP') and follow the process

Physical Holding: The Members holding equity shares of the company in Physical Form and who have not registered their email addresses and/or Bank Account details may register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: http://linkintime.co.in/emailreg/email register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For any query on the above matter, shareholders of the Company are requested

M/s Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1° Floor, Plot No.NH-2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058

Tel: 011-41410592/93/94, Telefax: 011-41410591,

Date: 03.09.2020

Place: New Delhi

Email: delhi@linkintime.co.in For Paramount Communications Limited Rashi Goel Company Secretary & Compliance Officer

Regd. off: L-7, Menz. Floor, Green Park Extension, Delhi-110016 CIN: L65910DL1988PLC033799, Website: www.purshottaminvestofin.in,

PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED

Email: purshottaminvestofin@gmail.com, Ph. No. 011-46067802 NOTICE OF THE 31⁵⁷ AGM AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

the 31st Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Saturday, the 26th Day of September, 2020 at 09.00 AM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) to transact the business as set out in AGM Notice dated 16" July, 2020 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with MCA/SEBICirculars without physical presence of members at common venue.

registered by them with the Company/ Depository Participants on or before 02.09.2020. The requirement of sending physical copy of the notice to the Members have been dispensed with vide relevant Circulars.

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2019-20 of the Company will be available on the website of the Company at www.purshottaminvestofin.in and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com

E-voting period commences on Wednesday, 23rd September, 2020 at9:00 A.M and ends on Friday, 25th September, 2020 at 5:00P.M.

The businesses set out in the notice of AGM, may be transacted through e-voting or e-

The share transfer book of the Company will remain closed from Sunday, 20"September, 2020 to Saturday, 26"September, 2020 (both days inclusive) for the

The facility of joining the AGM through VC/OAVM shall 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting and will be available for members on first come first served basis.

share capital of the company as on the cut off date i.e. 19" September, 2020. Any person who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut off date i.e., 19" September, 2020, may obtain the login ld and Password by sending a request to helpdesk@cdslindia.comorinfo@masserv.com.Members are requested to login at http://www.evotingindia.com/ by using the remote login credentials. The link for electronic participation through VC/OAVM during the meeting will be available. in shareholder/members login portal where the EVEN of the company will be displayed. The facility for appointment of Proxies by Members will not be available since the AGM is

In case of any query or grievance pertaining to e-votingand attending the AGM through VC/OAVM, Members may contact Mr, Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, East Mumbai 400013. Email: evoting@cdslindia.com, Tel: 1800-225-533. Further, Members may also contact with Mr. Deepanshu Rastogi, General Manager, MAS Services Limited, RTA at

Mr. Kundan Agrawal, a Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7631). Proprietor, M/s. Kundan Agrawal & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company (www.purshottaminvestofin.in), and by filing with the BSE Ltd. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company.

remote e-voting but shall not be allowed to voteaga in in the meeting. Members who have not registered their email-id are requested to register the same by

Holding Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self attested

not registered already.) Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email Demat

Holding address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

> Ankit Gupta Company Secretary

In continuation to our earlier advertisement dated 28.08.2020, NOTICE is hereby given that

In compliance with the circulars, the Notice of virtual AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent to all the members electronically to the e-mail ID

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013read with the rules made

thereof and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing e-voting facility to its members hold ingshares as on Saturday, 19th September, 2020 being cut off date, to exercise their vote at the ensuing AGM. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of meeting (e-voting). The company has engaged CDSL to provide remote e-votingfacility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

The voting through electronic means shall not be allowed beyond05:00 P.M. on 25th September, 2020

purpose of the Annual General Meeting

The voting right of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity

being held through VC/OAVM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.

info@masserv.com or on Telephone No.; 011-26387281/82/83.

10. A member may participate in the AGM even after exercising his/herright to vote through

following the procedure given below: Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services

scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd floor, Okhla) industrial area phse-ii, New Delhi 10020 alongwith letter mentioning folio no. if

All shareholders/members attending AGM through VC or OAVM, who wish to speak or pose guestions shall register themselves on or before 18th September, 2020 with their Folio no. DP ID/Client ID, E-mail id and Mobile no. at the e-mail id of the Company i.e pil.cs0187@gmail.com For Purshottam Investofin Ltd.

financialexp.epapr.in

e-tenders are invited from the Authorized Indian Agents/Dealers of Original Equipment Manufacturers (OEM) for the supply installation and commissioning of Colorimeter. The terms and Conditions of tender document along with other information car be downloaded from e-tendering website of Uttarakhand Government www.uktenders.gov.in from 7th September, 2020 to 22nd September, 2020. The cost of tender is Rs. 1180/-including GST and Earnest Money Deposit is Rs. 18,000/ (Rupees Eighteen Thousand only). Exemption for cost of tender and EMD, if any

> Director Centre for Aromatic plants (CAP)

Industrial Estate, Selagui-248011, Dehradun (Uttarakhand)

Telefax-0135-2698305, E-mail: cap.dun@gmail.com Website www.capuk.in

and commissioning of Fully Automatic Dhoop Stick Making Machine- 01 No. The terms and Conditions of tender document along with other information can be downloaded from e-tendering website of Uttarakhand Government www.uktenders.gov.in from 7th September 2020 to 22nd September, 2020. The cost of tender is Rs. 1180/- including GST and Earnest Money Deposit is Rs. for cost of tender and EMD, if any shall be considered only on production of valid proof of Exemption Certificate from the concerned authority. The tender can only be applied through etendering procedure on the website www.uktenders.gov.in. The last date of submission is 22nd September, 2020. Director

Centre for Aromatic plants (CAP)

Selagui-248011, Dehradun (Uttarakhand) Telefax-0135-2698305, E-mail: cap.dun@gmail.com

State Bank of India State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch-II, 18/4, 3rd & 4th Floor, SBI House, Arya Samaj Road, KarolBagh, New Delhi-110005, Email: sbi.51521@sbi.co.in

POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002,

a demand notice was issued on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act

read with Rule 9 of the said Act on the dates mentioned against each account. The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property

will be subject to the charge of the STATE BANK OF INDIA for an amount and interest thereon. The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets

Name of Account/Borrower & address	Name of Proprietor/ Partners/ Guarantors/ Owner of property etc.	Description of the property mortgaged/ charged	Date of 13(2) Notice Date of Possession	
	(1)Mr. Jatin Kumar Verma S/o			Rs.3726952.00 (Rupees
Kumar Verma S/o Sh. Rajesh Verma, R/o House No. 57, First Floor, Sector- 28, Faridabad:- 121002	Sh. Rajesh Verma, C/o Wipro Ltd. Plot No. 480-481, Phase III, Udyog Vihar, Gurgoan-122006, (2) Mr. Puneet Kumar Verma S/o Sh. Rajesh Verma, C/o Thermo Fisher Scientific (I) Pvt. Ltd., A- 34, Ground Floor, Sector-2, Noida U.P-201301	62, Urban Estate Faridabad -121004.		Thirty Seven Lacs Twenty Six Thousand Nine Hundred Fifty Two Rupees Only) + Future interest at the contractual rate W.e.f 03.10.2018 and future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, costs, charges,

DATE: 31.08.2020 PLACE: Faridabad

Authorised officer. State Bank of India

Sindhu Trade Links Ltd. 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035 Audited Financial Results (Standalone) for the Financial Year ended 31st March, 2020 CIN: L63020DL1992PLC121695 Website: www.sindhutrade.com.

Emailid: corporatecompliance@sindhutrade.com, Ph.:01147634400 Extracts of Standalone Audited Financial Results for the Financial Year Ended on 31.03.2020

	Quarter Ended		Year Ended	Year Ended
Particulars	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)
Total Income from operations	25,003.82	27,334.56	87,309.54	1,15,251.01
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	3,486.32	911.93	7,874.18	9,666.48
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	3,486.32	911.93	7,874.18	9,666.48
Net profit/(Loss) for the period after tax (before comprehensive Income)	3,486.32	911.93	5,670.78	7,010.93
Total Comprehensive Income for the Period {comprising Profit/Loss for the Period (after Tax)} and Other Comprehensive Income (after Tax)	4,099.41	1,776.06	6,790.94	7,366.78
Equity Share Capital	5139.76	5139.76	5139.76	5139.76
Reserves (excluding Revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year)	49,119.61	41,752.83	55,910.55	49,119.61
Earning Per Shares (for continuing and discontinued operation) of /-each) Basic: Diluted:	4.91 4.91	2.58 2.58	11.03 11.03	13.64 13.64

Place: Delhi

Dated: 02.09.2020

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange and company's website www.sindhutrade.com. The above results after being reviewed by the Audit Committee were taken on record by the Board at its Meeting held on 02nd September, 2020.

The above Audited financial results of the Company for the Financial Year ended on 31st March, 2020 have been reviewed by Audit Committee of the Board and approved by the Board of Director at its meeting held on September, 02nd, 2020 The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary.

4. Audit Report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period. For & on behalf of Board of Directors

> Sd/-Satya Pal Sindhu Managing Director

Sindhu Trade Links Limited

DIN: 00218355

Place : New Delhi Date: 03.09.2020

Memb No.: A55201

New Delhi

Pursuant to Section 91 of the Companies Act,

Date : 02/09/2020 Place : New Delhi DIRECTOR

लालू से मिलने पहुंचीं विधायक का एकांतवास से छूट का अनुरोध

रांची, ३ सितंबर (भाषा)।

्झारखंड की राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचने पर 14 दिनों के लिए एकांतवास में भेजी गईं बिहार के बाराचट्टी क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक समता देवी ने बदले की भावना के चलते अपने खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से एकांतवास मुक्त कर वापस गया जाने की अनुमति की अपील की है।

समता देवी ने बताया कि उन्होंने अपने एकांतवास के खिलाफ राज्य सरकार से आज अपील की है और एकांतवास के आदेश में छट देकर गया वापस जाने की अनमति मांगी हैं। रांची के अतिरिक्त जिला मजिस्टेट (कानुन-व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिन्हा ने सड़क मार्ग से यहां पहुंचीं विधायक समता देवी को उनकी एक सहयोगी महिला एवं दो अंगरक्षकों के साथ बुधवार को 14 दिनों के लिए एकांतवास में भेज दिया था। विधायक को उनके सहयोगी एवं अंगरक्षकों के साथ हटिया स्थित सरकारी अतिथिशाला में रखा गया है।

समता देवी ने आरोप लगाया, 'रांची के स्थानीय प्रशासन ने राजद का होने के कारण उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की है। मैं दलित हूं और महिला हूं। अधिकारियों के समक्ष मैं गिड़गिड़ाई लेकिन उन्होंने रहम नहीं किया।' इस संबंध में पूछे जाने पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि विधायक के आने की उन्हें कोई सूचना नहीं थी और वह किन परिस्थितियों में यहां पहुंचीं इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है।

रकान स्टील्स लिमिटेड

CIN: L27320UP1985PLC007582 निवासी: एनएच-2 (बारा टोल प्लाजा से 1 किमी), उमरान, रनिवा, कानपुर देहात- 209311

कॉपोरेंट कार्यालय: आनंद पैलेस, 10/499, एलन गंज, कानपुर- 208002 ईमेलः support@rakansteels.co.in, येवसाइटः www.rakansteels.co.in

एक्टुइएर एवना दी जाती है कि कॉरपेरिट पापलों के पंजलप ('एपसीए') और सेबी ('सबधित परिपर्वी') इस जारी सामान्य परिषक संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिषक संख्या 17/2020 दिनाक 13 अप्रैल, 2020 और प्रमान्य परिपद्र संख्या 20/2020 दिनाक 05 पहें, 2020 क्या अन्य लागू परिपत्रों के साथ पठिक भारतीय प्रतिभृति और विनिषय बोर्ड ('ऐबो')(आपतियों के प्रृचीकरण एव प्रकृटीकरण अपेक्षाए) विनिषयों, 2015 ('एलओडोआर') के साथ प्राप्त कंपनी अधिनिषय, 2013 के लागू प्रावधान के अनुपालन में कपनी की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के सेटिस में रिशोरिक व्यापार को करने के लिए सामान्य एशान पर सदस्यों की बिना शीतिक उपरिवर्ति के जुधवार, 30 रितंबर, 2020 को अपराइ 02.00 बजे वीडियो करिकोरिंग ('वीरो')/अन्य आहियो (अल पौन्स ('ओएडीएप ') के पाध्यप से आपोजित को जाएगी । एटस्य डीसी/ओएडीएप के पाध्यप से एजीएप उपस्थित होने के एक्ष्म होंगे। बोसी/ओएबीएम के माध्यम है भाग तेने आते सहस्य कपनी एक्ट, 2013 की भारा 103 एवधिक परिपर्जों के अनुपालक में, विजीम वर्ष 2019 - 20 के लिए एजीएम और विजीम विवरम (एटेंड अलीक) की एवस

बोर्ड की रिपोर्ट, आडिटर की रिपोर्ट और एंतरन किए जने वाले अन्य ट्राक्टवेजों के पात्र कंपनी के प्रशी एट्राम को थेजा जाएग जिस्का हंपेल पता कंपसे/डिपॉजिटरे पार्टिग्रिपेंट(ऑ) के साथ पंजीकत है। पर्वोक्त दस्तावेज कंपनी को वेबामहर और एटॉक एकावेंज को वेबासहर अधांक एपएएहं लिपिटेड www.mse.in पर भी उपलब्ध होंगे। कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) कियमों, 2014 के कियम 10 और ऐसी (आपतियों के एसीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाए) विनिषमों, 2015 के विनिषम 42 के प्राप्त पठित कपनी अधिनिषम, 2013 की धार 91 के अनुसार प्रदर्श का रजिएटर और होगर इएगांतरण के उजिएटर 23 एरतंबर, 2020 से 30 एरतंबर, 2020 तक (दोनों दिन सम्मितित)

कंपनी (प्रबंधन तहा प्रशाहन) रिपमों, 2014 महा एशोधित के रिपम 20 और ऐबी (आपितमों के एखीकरण एव प्रकृटीकरण अपेक्षाए) विनिषमों, 2015 के विनिषम 44 के एमध्र पठित कपनी अधिनिषम, 2013 की धारा 108 के अनुवर्ती, कंपनी अपने एउएमों को नेष्ठनल एविएरेड हिपाबिटरें लिपिटेड (एनएएडीएल) के पाध्यय है नीटिए पे उस्लिखित ए भी व्यवसाय को लेक देन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविश्रा (रिपोट ई-बोर्टिक) प्रवान करने के लिए

प्रभी प्रद्रामों को प्रविक् किया बाता है कि:

(छ) रिपोट ई-बोर्टिंग 27 फितंबर, 2020 को एबड़ 0900 बजे शुरू होगी और 29 फितंबर, 2020 को शाप 0500 बजे एपात होगे। रिपोट है बोटिंग को उक्त तिथि एवं एपम के बाद अनुमति नहीं दो जाएगी।

(क) एजीएम में रिमोट हं वोटिंग मा वोटिंग ब्रास एटएमों की पाउस निर्धारित करने की कट ऑफ डेट 18 फिलंबर

[ग) एक व्यक्ति, जिएके 07 एरतंबर, 2020 को हंपेल भेजने के बाद शेपर अर्थिक करता है और कंपनी के एदएम ब र गए हैं कट ऑफ डेट 18 रिकंशर 2020 की हेमरधारक है वह www.evoting.nadi.com पर अनुरोध भेवकर लॉफ्इन प्राप्त कर एकता है। हालांकि अगर व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले ऐ हो एनएएडीएल के साथ पंजीकृत है वद्र अपनी पौजुदा लॉगिन आइंडो/पूजर आइंडो और पाएवडं का उपपोग कर एकम है। (घ) भौतिक रूप में हेमर रखने वाले एउएम, जिन्होंने कंपनी के एम ह अपने हंमेल पढ़े पंजीकृत/अप डेट नहीं किए

हैं. उनके अनुरोध है कि कंपनी के रबिस्तुर को वेबसाइट www.skylinerta.com पर इंपेल पंजीकरण पर क्लिक करें और उपमें आवश्यक दातावेज अपलोड करें। (इ) डिपैटरीकुर मोड में लेमर रखने वाले एउएम, जिन्होंने अपने हंगेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं. उनए

अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरों प्रतिभागियों के साथ अपने हंगेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीपैट छातों को बनाए रछते हैं। (च) एजीएम की एचना कंपने की वेबसाइट www.ra.ka.nsteets.co.in और एनएसडीएत की वेबसाइट

www.evoling.nsdl.com पर उपलब्ध है: (छ) इते क्ट्रॉनिक पतरान की प्रक्रिया 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सुनन के साथ साथ सदामों को भेजी गई

इंमेल और एनएएडीएन की वेबरगइट www.evoling.nadi.com पर उपलब्ध है। ई. पतदान है एवंधित किसी भी ग्रस्त के मामले में, एटएम evoling @inadi.co.in और गा support @irakanateels.co.in पर हैं, मेल कर

(ज) एटएमों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में निश्वारित सभी नोटों को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से एजीएम में शामित होने के निर्देश, एजीएम के दौरान हैं वोटिंग मा रिमोट हैं वोटिंग के माध्यम से वोट डात रे का तरीका । बोर्ड के आदेशानुसा

कृते रकान स्टील्स लिमिटेर र. १- गीरमा प्रियाणी कंपनी सिंदाव

पारामाउँट कम्यनिकंशन्स लि. CIN: L74899DL1994PLC061295 **पंजी.कार्यालय**ः पारामाउंट हाउस

कोरम को पुरा करने के उददेश्य से की जाएगी।

स्थातः कातपुः

दिनोकः ७३ सितंबर, २०२०

CABLES

सी-125. नारायणा इंडस्टियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110028 Ph.: +91-11-45618800-900, Fax: +91-11-25893719/20

E-mail: pcl@paramountcables.com, Website: www.paramountcables.com

26वीं वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि **कंपनी की 26वीं वार्षिक साधारण बैठक** ("एजीएम") एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार साधारण व विशेष व्यापार का लेन-देन करने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 और उसके अंतगत बने नियमों के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन और निगमित मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी परिपन्न सं. 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड ("सेबी") और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपन्न सं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई. 2020 के अनपालन में बुधवार, 30 2020 को शाम 04.30 बजे वीडियो कांफ्रेसिंग (''वीसी'') / (अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों ('ओएवीएम') द्वारा आयोजित की जाएगी । वीसी / ओएवीएम सविधा भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 103 के अंतर्गत

उक्त परिपन्नों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रानिक प्रतियों सहित वित्तीय विवरण बोर्ड की रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट और उसके लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों सहित कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई—मेल पते कंपनी / डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.paramountcables.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linktime.co.in

पर भी उपलब्ध है। कंपनी ने अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") कर सुविधा प्रदान की है। कंपनी ने एजीएम ('ई-वोटिंग) के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सविधा प्रदान की है। रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग और वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है, जो जल्द ही उनके पंजीकृत ई-मेल पर लागू नियमों के अनुसार शेयरधारकों को भेजी जाएगी। कंपनी / डिपोजिंटरी प्रतिभागी के साथ अपने ई-मेल पंजीकृत न करने वाले सदस्य,

कपया ई-वोटिंग के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल रिजस्टर करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें: गैर भौतिक धारिता : 1. गैर भौतिक मोड में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने ई-मेल पंजीकृत नहीं किए हैं, लिंक http://linktime.co.in/emailreg /email_register.html पर क्लिक कर और उनके अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को अपनाकर कैंपनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया लिमिटेड के साथ अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। किसी भी पूछताछ के मामले में, सदस्य rnt.helpdesk@linktime पर

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया लिमिटेड को ई-मेल भेज सकते हैं। यह स्पष्ट हैं कि आपके डिमेट खाते में ई-मेल और बैंक विवरण का स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागी ('डीपी') से अनुरोध कर उनके द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। भौतिक धारिता : भौतिक मोड में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने ई–मेल और / या बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं किए हैं, लिंक

http://linktime.co.in/emailreg /email_register.html पर क्लिक कर और उनके अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को अपनाकर केंपनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया लिमिटेड के साथ पंजीकृत करा सकते हैं। किसी भी पछताछ के मामले में. सदस्य mt.helpdesk@linktime पर मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया लिमिटेड को ई—मेल भेज सकते हैं।

उक्त मामले में किसी पछताछ के लिए, कंपनी के शेयरधारकों से निम्न से संपर्क करने **मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया लिमिटेड**, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नं.

एनएच–2, सी–1, ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्किट के पास, जनकपुरी आई, नई

Tel: 011-41410592/93/94, Telefax: 011-41410591, Email: delhi@linkintime.co.in

पारामाउंट कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड के लिए दिनांक: 03.09.2020 स्थान: नई दिल्ली

एवन मकेन्टाइल लिमिटेड

CIN: L17118UP1985PLC026582 पंजी. कार्यालयः एस ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19 ए एवं 19 बी, सेक्टर-125, नौएडा-201301 (उ.प्र.)

कोविड 19 महामारों के अनवरत प्रसार को देखते हुए कार्मीरेट कार्य पत्रात्तय ("एमसीए") ने अपने सक्युंतर तिमि S पहुँ, 2020 के साथ पंठित सक्युंतर तिथि S अप्रैत, 2020 एवा 13 अप्रैत, 2020 के पाध्यप से विडियो कान्फ्रेंस ("वीसी") अमवा अन्य अंडियो-बिजुअल माध्यमों ("ओस्नोएम") के द्वारा एजीएम के आयोजन की अनुपति दो है। इन सक्युंतरों तथा कप्पनी अधिनयप, 2013 के सबधित प्रावधानों तथा सेबी (सुबीयन दामिन्त) एव उद्भारन अपेक्षा) विनियपन. 2015 के अनुपालन में कप्पनी की आगापी एजीएम रिम्बार 27 रिप्तप्बर. 2020 की

उपरोक्त सक्युंतार के अनुसार एफवाई 2019-2020 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एगीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पाध्यमों से ऐसे सदस्यों को भेगे जाने को अनुपति है जिनके इंपेल आईडी कप्पनी/आरटीशडिपॉजिटरींग के पास महतो से ही पत्रीकृत है । कम्मनी मूर्व के व्यवहारों की तरह ही अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध

वार्षिक रिपोर्ट तथा है। वोरिण के लिये लाँगिन विधारणों के साथ एगीएम की सूबना आपके पर्गोकृत हैं। पेल पते पर भेजी जायेगी। यदि आपने कम्पनी/डिपॉलिटरी के पास अपने इंग्मेल आईडी पर्जीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एफवाई 2019- 2020 के वार्मिक रिपोर्ट तथा है वोटिंग के लागिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना है पेल आहेडी भौतिका हैं मेल पने के पर्गोकरण के लिये फोलियो नम्बर, रोयरधारक का नाम, रोयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई

थारिता प्रति (फ्रान्ट तमा बैक), मैन (मैन का कार्ड की खतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति आधार (आधार कार्ड) को स्वतः सत्यापित स्कैन प्रति) को उपलब्ध कराने हुए admin@mcsregristars.com पर कप्पनी के रिकारद्वार तथा शेयर अंतरण एकेन्द्रस एपसीएस शेयर ट्वान्सफर एकेन्ट लिम्प्टिड के पास अनुरोध भेकें। डोंपैट धारिताः कृपया अपने फोलियों न. का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ हमारे आस्टीए. (अमांत् एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एंगेन्ट लिपिटेड. एफ -65. 1ला तल. ओखला औद्योगिक क्षेत्र. फेग-1. नई दिल्ली-110020 के पास पूल निरस्त बैंक के साथ अपना बैंक का विशरण पेगें (यदि वह पहले से पंगीकृत नहीं हो।)

डीपैट क्या अपने डिपॉबिटरी परिसिपैस (डीपी) से सम्पक्त करें तमा डीपी की सताह के अनुसार अपना है

एनीएपं की सूजना तथा एफवाई 2019-2020 का वार्षिक रिपोर्ट कप्पनी की वेबसाईट www.avonmercantile.in तमा बीएसई तिपिटेड की वेबसाइंट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। बीसी/ओएनीएम के माध्यम से सभा

में उपस्मित होने वाले सदस्यों की गगना कप्पनी अधिनियप. 2013 की धारा 103 के अनगंत कीरप के उद्धेश्य से की

एवन फ्केंटाइल लिपिटेड के लिये

DTN: 02359002

ओमकारा एसेट्स रिकेस्ट्रबशन प्राइवेट लिमिटेड एनेक्सी, निकट इक्किसंक्स, कलिना, कुर्ता (परिचय), मुम्बई 400070

प्रातापूरा हरा (प्रयतन) ानवप, 2002 के ानवप 3(1) के साथ पाठत प्रातापुर हरा आधानवप, 2002 क िरातीय आखियों तथा उपर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्पाण ("सरफाएगी अधिनियम") की भार 13(2)

प्रिविभूत हित अधिनियम, 2002 की भितीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एमें पुनर्निर्माण (कथित ट्रट अधिनियम) के तहत, प्रविभूति हित (प्रधर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की भारा 13(12) तहरा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में ओमकारा एरोट रीकेस्ट्रक्शन प्रह्नपेट लिपिटेड (ओएआरपीएल) (ओपकारा पीएस 04/2020 -21 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षपता में कार्यस्त) के प्राधिक्त अधिकारी होने के नारी अधीहरताक्षरी ने नीचे धर्णित कर्जदारी तथा इसके जपानतियों (सापृष्टिक रूप से क जंदार थर्णित) को उनके लिए निर्मत सम्बद्ध माँग सूचना(ओ) में उल्लिखित अकाया राशि संयुक्त या अलग अलग रूप से अदा करने को कहते हुए दिनांक 26.03.2020 को एक पॉंग सूचना जारी की थी जो नीचे भी

पुनः सारी/कुछ सूचनाओं को अनिङ्गलीयर्ड वापस करने अथना सम्बोधित के पास अब तक ङ्गिलीनरी की प्रतीक्षा के कारण वर्तमान सुनाना अन्य दरलायेजों/लेखनों, यदि कोई, कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्यित के साथ परित ऋग अनुभन्ध के तहत देव भुगतान की तिथि तथा/अथमा यसूची तक नीचे वर्णित तिथि(यों) से प्रयोज्य भाषी भ्याज सहित यहाँ नीचे धर्णित सशियों का इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित कर्जदार(यें) को संयुक्त या अलग-अलग रूप से अदा करने के लिए शैकल्पिक सेवा के रूप में जारी एवं निर्मत की जाती है।

राष्पूर्ण अकाया ऋग के पुनर्भुगतान के कारण प्रतिभूत करने के क्रम में निष्नांतिखित आखितायाँ क्रमशः कर्जदार(रों) द्वारा ओएआरपीएल के पास अंधक की गयी हैं ।

- क गंदार(रॉ)रगमानती(यॉ) के नाम 1. पद्मर कुपार (कजंदार)
- पग् अग्रवाता (सह कंगेंदार)
- पाँग सुबना की तिथि : 26.08 2020

परुप्राप. हरियापा-122002

- 1. अरविन्द भई (कर्गदार)
- तुषमा भई (सह-कनंदार)

प्रतिभूत आसायों का विवारण (अवल समानि

फ्लैट स. 2324. नीसरी पनित. ब्लॉक बो. पकिट 2. वसन्त कुन. नई दिल्ली 110070

ओएआरपीएल लागतों तथा परिणामों के लिए कथित कर्जदारों के पूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13(4) िराधा प्रयोज्य नियमों के रहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध समस्त या किसी एक अधिकार का प्रयोग करने के लिए रक्तन्त्रा होगा।

उपर्युक्त कर्जदारों को ओएआरपीएल की पूर्व लिखित सहपति के ब्रिमा कथित अधिनियम के तहत उपर्युक्त अस्तियों को भिक्री, पढ़दे या अन्य प्रकार से इस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि कोई भी ध्यक्ति जो कथित अधिनियम के प्रायक्षानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों का उस्लंमन करता है या इसका प्रयास करता है तो यह अधिनियम के तहत प्रायधानित जेल तथा/अथया जुर्माने का दायित्यधारी होगा।

तिथि: 26.08.2020 स्थानः पुष्पाई

अधिकृत प्राधिकारी, कृते ओपकारा एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्रा.लि. (उप्रोपकारा पीएस 04/2020-21 इस्ट के इस्टी के रूप में उपानी

SPARK MINDA

मिण्डा कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. ४०४-४०५, ५वां तल, सेक्टर-२०, वर्षोग बिहार, फेब-3, गुड़गांव, हरियाणा-122016

रेली नं.: +91-124-4698400, फैक्स: +91-124-4698450

35वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग जानकारी की सुबना

अधिनियम्, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कॉर्पीरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी क्रमशः साधारण सर्व्युलर नं. 14/2020, 17/2020 सथा 20/2020 सिथि ड अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 (''एमर्सीए सर्व्युलर्स'') तथा भारतीय प्रतिभूत और विनिमय भोर्ड द्वारा जारी सर्व्युलर नं. सेभी/एनओ/सीएफडी/सीएपडी/सीआईआर/पी/2020/79 विधि 12 पई, 2020 (''रोओ राज्युंसर'') के साथ पठित रोषी (सूचीयन दायित्व राधा उद्घाटन अपेक्षा) विनिव्यपन, 2015 के अनुपालन में विडियो कान्केंसिए अन्य ऑडियो विजअल मध्यमी ("वीसी/ओएबीएम") सुविधा द्वारा पर्गालयार, 29 सिराप्शर, 2020 को 10.00 अने पूर्वा. (आईएसटी) में किसी सार्वजनिक स्थान पर सदरमों की शारीरिक उपरिश्वति के ब्रिना आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम के आमंत्रण के लिये भेजी जा रही एजीएम की सुचना में धर्णित ध्यधसायों को निष्पदित किया जायेगा।

कप्पनी ने 35 वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक पद्धति से उपरोक्त एमसीए सर्क्युलर्स, रोबी राज्युंबर शिथि 12 मई, 2020 के अनुसार ऐसे रादस्यों को भेज दी जाएगी जिनके ईमेल परो कप्पनी/डिपॉनिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण यह ध्यान रखें कि एजीएप की सूचना तथा वार्षिक िरिपोर्ट 2019 - 20 कप्पनी की वेधाराहिट www.s.parkminda.com, स्टॉक एक्स चैंजी अर्थात औएसई लिपिटेड तथा नेशनल खॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिपिटेड की वैबसाईट www.nscindia.com तथा www.bseindia.com पर कपाशः तथा साथ ही एनएसडीएल की शेषसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्यगण कैयल यीसी/ओएयीएम सुविधा द्वारा ही एजीएम में उपस्थित तथा शामिल हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोट ई-योटिंग अथवा 35 वीं एजीएम में ई-वोटिंग प्रशासी द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। बीती/ओएबीएम तुविधा द्वारा ही एजीएम में उपरिधत तथा शामिल हो तकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोट ई- योटिंग अथया 35 वीं एजीएम में ई-योटिंग प्रणाली द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी/ओएथीएम द्वारा सभा में उपरिशत होने आले सदस्यों की गणना कप्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के

भौतिक पद्धति में शेवर थासि करने वाले सदस्यों जिन्होंने कप्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ईमेल पते पंजीक्त नहीं कराये हो, ये investor@mindacorporation.com पर ईपेल द्वारा निप्न दरतायेंगों की रकैन की गई प्रति भेगकर ई-बोटिंग रुहित 35वीं एजीएम की सुनन), वर्षिक रिपोर्ट एकं अथवा वीती/ओएनीएम सुविधा द्वारा ३५ वें एजीएम में शामिल होने के लिये लागिन विवरणों को

क) अपने नाम, फोलियो नम्बर तथा राष्पूर्ण फो का उल्लेख करते हुए एक इस्ताक्षरित अनुरोध पत्र; हा) पैन कार्ड, की रवतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति; तथा

केंक्र शिवरण, परादासा पहचान पत्र, पारपोर्ट, आधार कार्ड) की रुप्तः सरमापित स्कैन की गई प्रति। मीतिक पद्धति में शेवर व्यक्ति करने वाले सदस्यों निन्होंने इसेक्य्रोनेक क्लीअरिंग रोवा अभवा किसी अन्य माध्यमी ("इसेक्ट्रॉनिक शैंक मैंडेट") द्वारा अपनी शैंक खाताओं में प्रत्यक्ष रूप से भविष्य में साभारा प्राप्त करने के सिये अपने बैंक के दिवारण अद्यतन नहीं कराये हों, ये investor@mindacorporation.com पर ईमेल द्वारा पैरा 3 में यर्गित दस्तायोगों के अतिरिक्त निप्न विवरणो/दरनावेगों को भेगकर इसेक्ट्रॉनिक अभवा किसी अन्य भाष्यमें से अपनी केंक खाता में प्रदीष्य में

क) बैंक का नाम एवं शासा तथा बैंक साता का प्रकार; हा)कोर भैंकिंग सॉल्यूशन्स की पूर्णता के बाद आपके बैंक द्वारा आर्थीटरा बैंक खारा संख्या;

अत्यक्ष रूप से साभारा प्राप्त करने के सिये अपने इसेक्ट्रॉनिक बैंक पेंडेट को पंजीकृत करा सकते हैं ।

सरमापित स्कैन की गई प्रति:

. डीपैट पद्धति में शेवर थारित करने जाले सदस्यों है अनुरोध है कि अपने डिपॉनिटरी के पाह अपना

पिण्डा कॉर्पीरेशन लिपिटेड के लिये स्थानः दिल्ली

एमबाएल इन्फ्रास्ट्रक्चस ।लामटड

सीआइएन: L27109DL1995PLC338407 बानी कारपोरेट वन टावर, सुईट नं. 308, तीसरा तल, प्लाट नं. ५, कॉमशियल सेंटर, जसोला, दिल्ली-110025 टेली: +91-11-48593300, फैक्स: +91-11-48593320 हमेलः cs@mblinfra.com, देवसहटः www.mblinfra.com

सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एव प्रकृटीकरण अपेक्षाए) थिनिययों, 2015 के थिनियम 29 के साथ पटित विनियम 47 के अनुवर्ती एतदृहारा सूचना दी जाती है कि दिनाक 30 जून, 2020 को समाप्त तिमादी के लिए कप्पनी के अलेखापरीक्षित भित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन तथा समैकित दोनों) को रिकार्ड पर लेने तथा परस्पर थिचार, अनुपोदन के लिए कप्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक सोपाधार, 14 सितबर, 2020 को आयोजित की जाएगी।

सूचना चीएसई लिपि. की वेबसाहट (www.bseindla.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैज ऑफ इंडिया लिपिटेड (www.nseindia.com) जहां कपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और कपनी की वेबसाइट जैसे www.mblinfra.com पर पी उपलब्ध है।

कृते एपबीएल इन्फ्रास्ट्रक्बर्स लि दिनांक: 02.09.2020 हरता./- अनुभव महेश्वरी कंपनी सविद स्थानः नई दिल्ली

(KVB) Karur Vysya Bank

मडल कायालय, ग. 6, 3रा तल, सामने मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड, Smart way to bank करोलबाग, नई दिल्ली- 110005

फोन: 011-28758374/ 2875375/ 76/ 77, ई-मेलः delhido@kvbmail.com, bhaskaranps@kvbmail.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावाली, 2002 के नियम ७ (७) के प्रावधानी के साथ पठित विनीय परिसम्पनियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्पाण तथा प्रतिभृति दिन प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्पत अवल परिसप्पनियों की बिक्री के लिये ई-नीलापी बिक्री सूचना

एतद्डारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गार-टरों को सुचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर द करुर वैस्य वैंक लि. के पास गिरवी/ चार्न्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति निसका द करुर वैस्य बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, कि 1) मै. शिवालिक इन्टरनेशनल, पर प्रॉप: श्री मनीश मेहता, पुत्र श्री अनिल कुमार मेहता, निवासी क्यूडी-41, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-1100SS, जिनक व्यवसाय का स्पल है: 886/1, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005; 2) श्री मनीश मेहता, पुत्र श्री अनिल कुमार मेहता, निवासी: क्यूडी-41, विशाखा एन्क्लेब, पीतमपुरा दिल्ली-110088 तथा 3) श्री अनिल कुमार मेहता, पुत्र ए.एल. मेहता निवासी: क्यूडी-41 विशाखा ए-क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-1100SS से करुर वैस्य वैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 3,85,31,295.73 (रुपये तीन करोड़ पचासी लाख इक्कतीस हजार दो सौ पंचानवे तथा पैसे तिहत्तर मात्र) की वसूली के लिये 15.10.2020 को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" तया "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर विक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तया ईएमर्ड इस प्रकार है:

विशास ।	अगरकित पूल्य	इंएपडी
पट स. 1	70.00.000.00	7.00.000.00
प र स. 2	1.17.75.000.00	12,00,000.00
पर स. उ	64.00.000.00	6.40,000.00

अवल सम्पत्ति का विवरण

मद सं. 1.: नीचे की भूमि तथा भवन में आनुपातिक शेयर के साथ बिना छता टैरेस के अधिकार के ईस्ट पार्क रोड, कराले बाग, नई दिल्ली-110005 में भूतल में व्यावसायिक दुकान/हाँल/सम्पत्ति का माप लगभग 350 वर्ग फीट, नं. 886/1 जो बिक्री प्रलेख सं. 4453/2006 तिथि 12.06.2016 के अंतर्गत शामिल है।

मद सं. 2: नीचे की भूमि तथा भवन में आनुपातिक शेयर के साथ बिना छत/दैरेस के अधिकार के ईस्ट पार्क रोड, कराले बाग, नई दिल्ली-110005 में भूतल में व्यावसायिक दकान/हॉल/सम्पत्ति का माप लगभग 471 वर्ग फीट, नं. 886/2 जो बिक्री प्रलेख सं. 3769/2002 तिथि 13.S.2002 के अंतर्गत शामिल है। मद सं. 3: बिल्डिंग नं.: 886/1, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005 में भूमि वे

आनपातिक अविभाजित शेयर के साथ बिना छता दैरेस के अधिकार के भूतल (रीअर साहड) माप लगभग 320 वर्ग फीट में व्यावसायिक सम्पत्ति/दुकान/स्थान/हॉल जो बिक्री प्रलेख सं 1041/2005 तिथि 10.02.2005 के अंतर्गत शामिल है। बिक़ी के विस्तृत नियमों एवं शतों के लिये कृपया हमारे बैंक/ प्रतिभूत क्रेडीटर की वैबसाईट

अर्थात www.kvb.co.in/ Property Under Auction में दी गई लिंक तथा साथ ही सेवा प्रदाता, मैं. श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लि. की चेच पोर्टल https://eauctions.samil.in देखें सरफैसी अधिनयम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पटित B (6) के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सुबना एतदुडारा ऋणधारक/ गार-दरों को सूचित किया बाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यत

ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उक्त राशि का भूगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री की जायेगी तथा शेष देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ बसूल की जायेगी। गुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

तिथि: 31.08.2020 स्थानः पानीपत द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

पुरषोत्तम इन्बेस्टोफिन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : एल-७, पेन्ज फ्लोर, प्रीन पार्क एक्सटेंशन, दक्षिणी दिल्ली-110016

सीआईएर : L65910DL1988PLC033799, वेबसाइट : www.purshottaminvestofin.in ई-पेल : purshottaminvestofin@gmail.com, द्रमाघ रे : 011-46067301 अवीं एजीएम तबा रिमोट ई-बोटिंग सूचना की सूचना

हमारे पिछले विज्ञापन दिनाक 28.08.2020 की निरन्तरता में एतद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीए। सुचना दिनाक 16 जुलाई, 2020 में निर्धारित प्रकार्य पर लेन-देन के लिए एमसीए/रोबी परिपत्रों के साब पिटत कप्पनी अधिनियप, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्पित नियापी के अनुपालन कॉपन स्थान पर सदस्यों की पीतिक उपस्थित के थिना कप्पनी की 31वीं वार्षिक आप बैटक शनिवार 26 सितप्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः बीडियो काफ्रीसम ('बीसी')/अन्य ऑडियो-बिज्अल साधनी ("ओएबीएम") के पाध्यप आयोजित की जानी निधीरित है।

परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा विश्व वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट रापी सदस्यों र पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से कप्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पजीकृत उनके ई-पेल पते प 02.09.2020 को पैजी गयी है। प्रारागिक परिपत्रों के माध्यप से सदस्यों को सूचना की पौतिक प्रति पेजने की आधरमकता समाप्त कर दी गयी है।

कप्पनी की बित्त वर्ष 2019-20 की धार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएप की सूचना कप्पनी की धेबसाइट www.purshottaminvestofin.in तथा बीएर्स्ह लिपिटेड की येथराहट www.bseindia.com

कप्पनी अधिनियप, २०१३ तथा उसके नियमों के तहत धारा १०४ एथ सेथी (एलओडीआर) विनियप 2015 के भिनियम 44 के अनुसार कम्पनी एजीएम मैं अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु कट- ऑफ तिथि शनिवार, 19 सितप्थर, 2020 तक शैयर धारण करने वाले अपने सदस्यों को ई- मोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य बैठक के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मोटिंग प्रणाली (ई-बोटिंग) का उपयोग करके अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। कप्पनी ने ई-बोटिंग सुविधा वे िलए सीडीएसएल की सेवाएँ प्रहण की हैं। कप्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके नियमों के प्राथधानों के अनुसार थिथरण निप्नलिखित हैं।

 रिपोट ई-बोटिंग असीध 23 सितम्बर, 2020 को 9:00 बजै प्रातः प्रारम्प होगी और सुक्रसार, 25 रिरतप्बर, 2020 को 05:00 बजे साथ पर रापाप्त होगी।

2. 25 सितप्बर, 2020 को 5.00 बजे साथ के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा पतदान की अनुपाति नहीं होगी। एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य का लेन-देन ई-बोटिंग या एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के पाध्यप से सप्पन्न होगा।

वार्षिक आप बैठक के उद्देश्य से कप्पनी की शेयर अन्तरण पुरितक रविधार, 20 सितप्बर, 2020 से शनिधार, 26 सितप्बर, 2020 (दोनों तिथियों शापिल) तक बन्द रहेंगी। वीसी/ओएबीएप के पाध्यप से एजीएप में शापिल होने की सुविधा बैठक के निर्धारित समय से उर

पिनट पर्व और पश्चात तक होगी और सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओं के आधार पर होगी। सदस्यों के पताधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 सितप्बर, 2020 तक कप्पनी की प्रदत्त इकियरी शैयर पूँजी के उनके शैयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सुचना पेजे जाने के परचात कप्पनी का सदस्य बन जाता है यह helpdesk@cdslindia.com orinfo@masserv.com पर नियेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासयर्ड प्राप्त कर सकता है। बैठक के दौरान भीरी/ओएभीएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी हेतु लिक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन पोर्टल में उपलब्ध होंगे जहाँ कम्पनी के ईधन प्रदर्शित होंगे। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुधिया उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम बीसी/ओएबीएम के माध्यम से आयोजित होगी। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे एजीएम की सुचना के कैयल सुचना के उद्देश्य

ंबीसी√ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने तथा ई-धोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताई या शिकायत के लिए सदस्य सप्पर्क करें : श्री सकेश दलवी, प्रबन्धक, सीडीएसएल, ए विग, 25वें पिजल, पैराथन प्र्यूचरेक्स, पफतलाल पिल कप्पाउण्ड्स, एन.एप. जोशी पार्ग, लोअर परेल, पूर्वी पुष्पई-400013. ई-पेल : evoting@cdslindia.com, दूरपाध : 1800-225-533. अधिक जानकारी सदस्य सम्पर्क कर सकते हैं : श्री दीपाशु रस्तोगी, महाप्रबन्धक, एमएएस सर्विसेज लिपिटेड आस्टीए, ई-पेल : info@masserv.com अथवा दूरपाघ न. : 011-26387281/82/83.

श्री कुन्दन अप्रधाल, कार्यरत सचिध (सदस्यता स. एफसीएस 7631), प्रोपसहटर, पैसर्स कुदन अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को निष्पक्ष एवं पारदर्शी हम से पतदान तथा रिपोट ई-बोटिम प्रक्रिया की संबीक्षा के लिए संबीक्षक नियुक्त किया गया है।

परिणामों की मोषणा बैठक की रामाप्ति के अधिकतम अङ्ग्रालीस मण्टों के पीतर कर दी जायेगी और इसे कप्पनी की येथसाह्य (www.purshollaminvestoffn.in), पर अपलीड कर दिया जायेग तथा भीएसई लिपिटेड के पास दर्ज कर दिया जायेगा। इसे कप्पनी के प्रजीकृत कार्यालय के सुचन बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

10. सदस्य रिपोट ई-बोटिंग के माध्यप से अपने मतदान के उपरान्त भी एजीएम मैं भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें बैटक में मतदान की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने अपने ई-पेल आईडी पजीकृत नहीं कराये हैं ये कृपया निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करके हरी पजीकृत करा लें

भौतिक धारिता : ई- मेल पता पजीकृत कराने के लिए कप्पनी के रिजरट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट पार सर्विरोज लिपिटेड के पास info@masserv.com पर फोलियो नप्बर: शैयरधारक का नाप, शैयर प्रमाणपञ की रकैन्ड प्रति (आगे तथा पीछे), पैन (पैन कार्ड की रवप्रमाणित रकैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रपाणित स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए निधेदन पेजें। कृपया पूल कैंसिल चैक् के साथ अपने बैंक का विवरण हमारे आस्टीए (अर्थात मास सर्विसेज लिम्टिंड, टी-34, दूसरी मजिल ओखला इंग्डरिट्यल एरिया, फेज-((, नई दिल्ली-110020) के पार। यदि पहले से पजीकृत नहीं है तें फोलियो न. का उल्लेख करते हुए पत्र धेर्जे।

डीपैट धारिता : कपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पजीकृत करायै।

कृपया, एनएसीएच द्वारा लाभाश के भूगतान, यदि कम्पनी द्वारा भोषित हो, के लिए अपने डीपी के साब अपना बैंक विधरण भी अपडेट करायें।

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 03.09.2020

बीसी या ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सभी शेयरधासक/सदस्य जो बोलना चाहते है या प्रश्न पूछना चाहते हैं ये कप्पनी की ई-पेल आईडी अर्थात pil.cs0187@gmail.com पर अपने फोलियो न., डीपी आईडी/क्लाइट आईडी, ई-पेल आईडी तथा पोबाइल न. के साथ 18 सितप्बर, 2020 को या उसके पूर्व पत्रीकृत कर। लें। कृते पुरबोत्तम इन्देरटोफिन लिपिटे

(अफित गुप्ता) कम्पनी सविव ₹-5520°



मेडल कार्यालय, गे. ६, ३रा तल. सामने मेट्टो पिलर नं. 80, पूसा रोड, करोलबाग, नई दिल्ली- 110005

फोन: 011-28758374/ 2875375/ 76/ 77, ई-मेलः delhido@kvbmail.com, bhaskaranps@kvbmail.com

अचल सम्पित्रयों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम उ (४) के प्रावधानी के साब पठित विलीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्तिपीण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अवल परिसप्पतियों की बिक्री के लिये ई-नीलापी बिक्री सुवता

एतदुडारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गार-टरों को सुचित किया जाता है

कि प्रतिभूत क्रेडीटर द करुर वैस्य वैंक लि. के पास गिरवी/ चार्न्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति निसका द करुर वैस्य बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्ना क लिया गया है, कि 1) श्री श्रीवर्धन राठी, पूत्र श्री प्रदीप राठी पर करुर वैस्य वैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाए क) रु. 1,06,71,304.45 (रुपए एक करोड़ छह लाख इकहत्तर हजार ती-सौ चार तथा पैसे पैतालिस मात्र); ख) 2) श्री राज कुमार राठी, पुत्र पूनम चंद राठी के रु 1,24,97,942.57 (रुपए एक करोड़ चौबीस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ बयालिस तथा पैसे सत्तावन मात्र) की करुर वैस्य बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाए (कूल राशि रु 2,31,69,247.02 (रुपए दो करोड़ इक्कतीस लाख उन्हत्तर हजार दो सौ सँतालिस तथा पैसै दो मात्र), 3) श्रीमती आकृति राठी, पत्नी सौरभ राठी, 4) श्रीमती सोनल राठी, पत्नी उदित राठी, 5) श्रीमती दिव्या राठी, पत्नी श्रीवर्धन राठी, 6) श्रीमती सुषमा राठी, पत्नी राज कुमार राठी, सभी निवासी: 26ए, साधना एन्क्लेब, मालबीय नगर, नई दिल्ली-110017 से कहर बैस्य बैंक लि. प्रतिभृत क्रेडीटर के उक्त बकाए की बसली के लिये 15,10,2020 को ''बैसा है जह है", ''बैसा है जो है" तथा ''जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर विक्री की जायेगी। आरक्षित मुल्य रु. 1,50,00,000.00 (रुपए एक करोड़ पचास लाख मात्र) प्रतिमद होगा। धरोहर राशि भुगतान रु. रु. 15,00,000.00 (रुपए पन्डर लाख मात्र) प्रतिमद होगा।

। ग्राम डेरा मंडी, तहसील हौज खास, मेहरौली, नई दिल्ली की राजस्य सम्पदा में स्थित मुस्तैल नं. 98, किल्ला नं. 13 मिन (2-8) में शामिल खाली कृषि भूमि माप लगभग 4 बीघा 16 विसवा तथा चौहटी इस प्रकार है: उत्तरः अन्य फार्म हाउस,

अवल सम्पत्ति का विवरण

दक्षिण: 20' चौडा रोड पूर्व: उक्त सम्पत्ति का शेष भाग

श्रीराप ऑटोपाल इंडिया लि. की बेब पोर्टल https://eauctions.samil.in देखें I

तथा शेष देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ बस्तूल की जायेगी।

पश्चिमः 20' रोड/ मल्होत्रा का फार्म हाउस नं

बिक्री के विरुत्त नियमों एवं शतों के लिये कृपया हमारे बैंक/ प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.kvb.co.in/ Property Under Auction में दी गई लिंक तथा साथ ही सेवा प्रदाता, मै

साविधिक बिक्री सुचना एतदृद्वारा ऋणधारकः गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलापी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उकत राशि का भुगतान करें अन्यथा सप्पत्ति की नीलापी/ विक्री की जायेगी

सस्प्रेमी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8 (6) के अंतर्गत 30 दिनों की

विधि: 31.08.2020 मुख्य प्रबंधक एवं पाधिकत अधिकारी स्थानः दिल्ली द करूर वैरय बैंक लिमिटेड

हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड सीआर्र्य: L80221DL2010PLC207436

पंजीकृत कार्यालयः 1374-1375, कदरा लेहरचान, चाँदनी चौक, दिल्ली-11006 होबसाइट: www.hummingbirdeducation.com 🕇-मेल: hummingbirdeducation@gmail.com

भिडियो कॉन्फ्रेंसिंग (बीसी)/ अन्य ऑडियो विज्ञुक्षल पाध्यपो (ओएबीएम) द्वारा 10बी वार्षिक साधारण क्षभा के आयोजन, रिपोट ई-पोटिंग जानकारी तथा पुस्तक मंद्र होने के धिषय में शेयरधारकों के लिये सुधन एतद्कारा सुचित किया जाता है कि इपिंग मर्ड एजुकेशन लिपिटेड ("कप्पनी") के शेयरधारकों की 10र्थ (दसभी) भाषिक साधारण सभा (''एजीएम'') - मुधभार, ३० सिराम्मर, २०२० को १२.३० भजे अप (आईएसटी) में भिडियो कॉर्नेन्स ("मीसी")/ अन्य ऑडियो भिजुअल माध्यपो ("ओएभीएम") द्वार आयोजित की जाएंगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट ध्यथसायों को निष्पदित किया जायेगा जिसे अला शेयर धारकों को भेजा जायेगा तथा साथ ही जहां कप्पनी की हक्षियटी शेयर सुचीयद्ध हैं उन स्टॉक एक्सचैंज अर्थात भीएसई लिपिटेड की येगसाईट (www.bseindia.com) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेर (इंडिया) लिप्टिंड (सीडीएसएल) की येमसाईट (www.evotingindia.com) के साथ कप्पनी के धेषसहंट अर्थात www.hummingbirdeducation.com पर भी उपलब्ध कराया जायेगा । क्रीधिड- १: महामारी के प्रसार को देखते हुए सर्क्युलर तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा 8 अप्रैल, 2020 के साथ पहिर शर्ज्युंतर - तिथि 5 मई, 2020 (सापुहिक रूप से ''एमशीए सर्ज्युंतर्स'' धर्णित) के पाध्यप से कॉर्पीरेट कार्य मंत्रालय ने किसी सामृहिक स्थान पर शेयरधास्कों की शारीरिक उपस्थिति के मिना भीसी या ओएमीएए के द्वारा एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। कम्पनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्य तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''सेबी सूचीयन भितियमन") एवं एमसीए सञ्जूलर्स के अनुपालन में कम्पनी का एजीएम बीसी/ ओएबीएम द्वारा आयोजित

एजीएम की सूनाना तथा मित वर्ष 2019-20 के भाषिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां: अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, एमसीए सर्ज्युलर्स तथा सेभी सर्ज्युलर्स तिथि 12 मई, 2020 के अनुसार एजीएम की शुचना तथा मित्र भर्ष 2019-20 की भाषिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी शेयरधारकों को भेज गाएगी जिनके ईमेल परो कप्पनी⁄ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीक्त हैं। शेयरधारक ध्यान रखें वि एजीएम की इसेक्ट्रॉनिक पार्टिशिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। शेयरधारक ब्यान रखें कि एजीएम की सुनन तथा थार्थिक रिपोर्ट 2019-20 कप्पनी की मेथसाईट www.hummingbirdeducation.com पर तथ स्टॉक एक्सचैंजो जहां कप्पनी की इकियटी शेयर सुचीगद्ध हैं, की मेमसाईटी अर्थात मीएसई लिपिटेड (www.bseindia.com) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिप्पिटेड (सीडीएसएस) व भेभसाईट (www.evotingindia.com) पर भी उपलम्ब होगा। भीसी/ ओएभीएम द्वारा एजीएम में भागीदारी:

शेयरधारक केथान भीसी/ ओएमीएम सुधिधा के पाध्यम से एजीएम में उपस्थित एमं भाग ले सकते हैं। (जे धृषिधा कप्पनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिपिटेड (सीडीएसएस) से प्राप्त की है, जिसक विभारण कम्पनी द्वारा एजीएम की सूचना में उपलम्ब कराया जायेगा। बीसी/ ओएबीएम के माध्यम से उपस्थित होने भाले शेयरधारकों की गणना कप्पनी अधिनयम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी। ई मेल आईडी पंजीकृत/अद्यतन कराने का तरीकाः जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपरे ई मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि इस प्रकार अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करा लें . भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने भाले शेयरधारकों: भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने भाले शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल परो अद्यतन नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि नाम तथा शेयरधारक व पता, शेयर प्रपाण पत्र की स्कैन्ड कॉपी (फ़ान्ट तथा भैक), पैन कार्ड की स्पतः सत्यापित प्रति तथा किसी अन्य दस्तापेजों (जैसे ड्राइपिंग लाइसैन्स, पतदाता, पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्पतः सत्यापित प्रति शेयरधारक के परो के समर्थन में, को उपलब्ध कराते हुए इस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ

investor.del@bigshareonline.com पर कप्पनी के रिजस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अर्थार भिगरोयर सर्विक्षेस प्राहेमेट लिपिटेड ("भिग रोयर") को लिखकर अपना हेमेल पता अद्यतन करा लें। . डि.मैटेरियलाइर्स्ड पद्धति में रोयरधारित करने माते रोयरधारकों: रोयरधारको से आग्रह है कि संगंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना ईमेल आईडी अद्यतन कराएं। ई- पेल परो के पंजीकरण में किसी प्रकार के प्रश्नो/ कठिनाईमों के लिए शेयर धारक investor.del @bigshareonline.com को लिखें रजीरम से पूर्व रखी गई प्रस्तावों का पतदान का तरीकाः

कप्पनी एजीएम की सुनाना में निर्दिष्ट सभी प्रस्ताभी पर मतदान करने के लिए शेयरक्षारकों को रिमोट ई-धोटिंग सृषिक्षा (''रिमोट ई-मोटिंग'') उपलम्ब करा रही है। इसके अतिरिक्त एजीएम के दौरान ई-मोटिंग प्रभाती ("ई-मोटिंग") के द्वारा भी मतदान की सुधिक्षा उपलब्ध करा रही है। डिपैटेरियलाइण्ड पद्धति भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने भाले शेयरधारकों तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, के लिए रिपोट ई-पोटिंग ई-पोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में मिस्तार से उपलब्ध कराया जाएगा। यह विधरण कम्पनी की धेषसाईट www.hummingbirdedcation.com पर प

अंतिम लाभांश तथा मुस्तक बंद होनाः शैयरधारक ध्यान रखें कि 01 सिराप्पर 2020 की आयोजित अपनी मैठक में निदेशक मंडल ने 31 मार्च

2020 को समाप्त भित्त मर्ब के लिए रू. 107- (दस रूपए मात्र) की समग्रत्य की प्रति इक्तियों शेयर के लिए 25% (पन्नीस प्रतिशत) (अर्थात रु. 2.50 (रुपए दो एवं पैसे पचास) की अंतिम लाभांश की सिफारिश कें है जो एजीएम में शेयरधारकों की स्मीकृति के अधीन होगा। सदस्यों के रजिस्टर तथा कप्पनी की शेय अंतरण पुस्तकें वित वर्ष 2019-20 के अंतिम लाभांश के लिए शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिशिन्त करने तथा धार्षिक क्लोज के लिए गुरुवार, 24 सितम्बर, 2020 से मुख्यार, 30 सितम्बर, 2020 (दोनों दिधर शक्तित) तक मंद रहेंगे। लाभांश, यदि मोमित होता है, का भुगतान उन शेयर धारकों को किया जाएगा जिनके नाम मुधमार, 23 सितम्मर, 2020 को कम्पनी के सदस्यों के रिजस्टर में शामिल होने तथा हिमैटेरियलाइन्ड पद्धति में भारित शैयरों के लिए उसका भुगतान उन शैयरधास्कों को किया जाएगा जिनका नाम उस तिथि के लाभभीगी स्मापियों के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिपिटेड (एनएसडीएल) तथा सेन्ट्रल डेपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिपिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि एजीएम में मोबित होता है, लाभांश के भुगतान का तरीकाः

एजीएम में शेयरधारक द्वारा यदि स्वीकृत होता है तो लाभांश का भुगतान ऑनासहन अंतरण की मिभिन पद्धति में इसेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट/ डिपॉजिटरी पार्टिपैन्ट्स के पास अपनी भैंक खाता के भिषरणों को अद्यतन कराए हैं। ऐरे शेयरधारको जिन्होंने मैंक खारा के मिथरण अद्यतन नहीं कराये हैं, डाक सुमिधा उपलब्ध होने तथा सामान हिथति भद्राल होने के भाद उनके पंजीकृत पते पर लाभांश भारन्द्रश लाभांश हाफ्ट भेजा जाएगा। लाभांत की प्राप्ति में देरी से भवने तथा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान की तिथि को अपनी मैंक खाता में लाभार। प्राप्त करने के लिए शेयरधास्कों से अनुरोध है कि अपने मैंक के मिमरणों (अर्थात् मैंक तथा शाखा का नाम, मैंक खात सं. ९ डिजिट का एमआईसीआर नम्पर, 11 डिजिट का आईएफएस कोड तथा खाता का प्रकार भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के लिये मिग शेयर के पास शेयरधारक के नाम में निरस्त चैक की कॉपी भेजक तथा इसेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के सिमे डिपॉकिटरी के पास भेजकर उक्त भियरणों को अद्यतन करा सें।

एजीएम में, यदि मोषित होता है, लाभांश पर करः वित्त अविनियम, 2020 के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय कर-योग्य र

तथा कप्पनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश से श्रीत पर कर (टीडीएस) की कटौरी करनी होती है। भिभिन्न श्रेणियों के लिये निर्धारित दरों के लिये शेषरधारकों से अनुरोध है कि भित्त अधिनियम 2020 (यथा-संशोधित देखें)। शेयरधारकों से अनुरोध है कि मिग शेयर (भौतिक पहरित में धारित शेयर के लिये) तथा डिपॉजिटरीज (डिपैट पद्धति में धारित शेयरों के लिये) के पास अपना पैन अद्यतन कराएँ पैन के साथ प्रभासी पैयव्हिक शेयरधारक जो आयकर का भूगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं हैं, प श्रीत पर कर की कटौती नहीं करने का लाभ प्राप्त करने के लिये प्रपत्र 15ली/15 एक में मार्षिक उद्योषण जाप। करें। शेयरधारकों से आफ़्रह है कि ध्यान रखें कि यदि पैन पंजीकृत नहीं है तो आयकर अधिनियप एथं/अथमा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार 20% (भीस प्रतिशत) की दर से कर की कटौती की जायेगी। गैर-प्रयासी शेयरधारक आधारमक दस्तायेजों से कोई स्थाई स्थापना नहीं तथा लाधधीगी स्थापित ठबुमोक्या, टैक्स रेजीडेन्सी प्रमाणपञ, प्रपत्र 10 एक तथा टैक्स होटी मेनेफिट्स सोर्स प्राप्त करने के लि^{र्} भांखित किसी अन्य दस्तामेण को उपलम्ध कराने की शर्त पर भारत तथा निभास के अपने देश के भीच टैक्स होटी के अंतर्गत लाभभोगी रैट्स प्राप्त कर सकते हैं।

शेयरधारक ध्यान रही कि प्रपत्रों को जामा करने के लिये भेष लिंक मार्षिक साधारण सभा की समाना प तथा अलग ईमेल सम्भाद द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त उद्घोषणा तथा दस्तायेज थिंग शेयर वै पास शेयरधास्क को 23 सिराम्पर, 2020 के 11.59 अप. (आईएसटी) को या उससे पूर्व जमा करना होगा कुपया ध्यान रहे कि उका तिथि के भाद प्राप्त तथा अपूर्ण प्रपत्रों अथया गलत प्रपत्रों पर विभार नहीं होग तथा उसने नॉन-डिक्शन अथया कर की नियन कटौती के सिये योग्य नहीं माना जायेगा। उठत के संबंध ये भिस्तृत निदेश एजीएम की सूचना में उपलम्ध कराई जायेगी तथा शेयरधारकों से आग्रह है कि उसका ध्यार

कृषया ध्यान रहे कि ऐसी करों में कटौती के लिये कम्पनी के मिस्द्ध कोई दामा नहीं किया जा सकता है हमिंग गर्ड एजुकेशन लिपिटेड के लिये

तिथि: 03.09.2020 पर्यक प्रताप सिंह स्थानः नई दिल्ली कप्पनी सविष

www.readwhere.com

राशि गोयल कंपनी सचिव व अनुपालक अधिकारी

12.00 क्षेत्रे दोफ्हर में बौसी/ओहबीहम द्वारा आयोगित की गायेगी।

यदि आपका हं भेत आहं ही कम्पनी/आरटीए/डिपॉनिटरी के मास फहते से ही मनौकृत हैं. तो एफवाई 2019 - 20 के

धारिता मेल मता पत्रीकृत कराएँ।

कमलापति कशयप स्वान: नोएडा तिथि: 209.2020

कॉर्पोर्ड कार्मलय : गी/S1S, करकिय जिलियर, एतबीएए हेड रथा ग्रीएएटी हेड का जंबहर, बीकेसी पंजीकृत कार्यालक : एं. ९. एवपी रगर, एथम गली, कीच् नगर एका.. तिरुपुर-641607 (विमेलसङ्)

बकाया राष्ट्रि : र. 88.57.083/ - (रुपये अटुठासी लाख सनावन हजार निरासी पात्र) प्रतिभत आसितयों का विवारण (अवल समित) इकाई स. टीएफ-04(ए). तीसरी पनित. नेएपडी रीनेंट प्ताना. ग्राप सिकन्दर पुर घोसी. पेन पेहरीती रोड.

पांग सुबना को निषि : 26.09.2020 अकाया राष्ट्रि : र. ९२.१५.७७३ (रुपये बयासी लाख पन्द्रह हजार सात सी निहत्तर पात्र)

न्यदि उपर्युक्त कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार ओएआरपीएल को भकाया भुगतान में असफल में होते हैं वो

पंजीकृत कार्यालयः ए-१५, अशोक विहार, फेज-१, दिल्ली-११००५२

CIN:L74899DL1985PLC020401 चेबसाई टः www.sparkminda.com, ईमेलः investor@mindacorporation.com

া. एतदुहारा सुचित किया जाता है कि कप्पनी के सदस्यों को 35 यों वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) कप्पनी

ग) कप्पनी में यथा पंजीकृत रादरबों के पते के रामर्थन में कोई भी दरतारोज (जैसे इहिंगि) लाहसैन्स,

ग) 11 डिजिट का आईएफएससी कोड; म) यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित हो, सदस्य अथया प्रथम बारक के नाम में निरस्त नेक की स्वतः

ईपेल परा**/इलेट्यॉनिक शैक पैंडे**ट अद्यतन कराएँ। उपरोक्त सुचना कप्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी तथा लाभ के लिये तथा एपसीए सक्युंलर्स तथा सेमी| सर्क्युलर के अनुपालन में जारी की जा रही है।

परदीप पान कप्पनी सविष तिथि: 04.09.2020 M.No. A 13371